

## प्रेस नोट थाना पीपीगंज दिनांक 16-07-2021

### **पीपीगंज थानाक्षेत्र के जंगल कौडिया टोला भवनभारी से चोरी हुआ ट्रैक्टर बरामद**

दिनांक 28/29.06.2021 की मध्यरात्रि मे थाना स्थानीय क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल कौडिया टोला भवनभारी मे महेन्द्र सिंह पुत्र स्व० राममूरत के घर के सामने से अज्ञात चोरो द्वारा एक अदद ट्रैक्टर पावरट्रैक चोरी कर लिये जाने के संबंध मे दिनांक 29.06.2021 को वादी मुकदमा महेन्द्र सिंह उपरोक्त के दिये गये प्रा०प० के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 148/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था उपरोक्त चोरी गये ट्रैक्टर के बरामदगी के क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक उत्तरी क्षेत्र के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के कुशल मार्गदर्शन मे व थानाध्यक्ष उ०नि० सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व मे उक्त चोरी गये ट्रैक्टर की बरामदगी के संबंध मे टीम गठित कर सुरागरसती पतारसी से मुखबिर खास द्वारा ज्ञात हुआ कि उक्त चोरी का ट्रैक्टर बिहार राज्य के जिला बेतिया (पश्चिमी चंपारण) अन्तर्गत थाना सिक्टा के ग्राम हरीपुर धर्मपुर टोला बरदही मे उक्त ट्रैक्टर इस समय है इस सूचना पर गठित टीम को लेकर मुखबिर के बताये गये स्थानपर पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक अदद पावरट्रैक ट्रैक्टर 50 एच०पी० रजि० सं० यू०पी० 53 डी०एक्स० 1134 चेचिस नं० T053529777KK को उपरोक्त स्थान से बरामद किया गया जिसे उचित माध्यम से लाकर थाना हाजा पर दाखिल किया गया तथा प्रकाश मे आये अभियुक्त की तलाश की जा रही है ।

#### **अनावरित अभियोग-**

मु०अ०सं० 148/2021 धारा 379 भा०द०वि० व बढोत्तरी धारा 411 भादवि थाना पीपीगंज गोरखपुर

#### **बरामदगी का विवरण-**

एक अदद ट्रैक्टर पावरट्रैक 50एचपी रजि० सं० यू०पी० 53डी०एक्स 1134

#### **बरामदगी टीम**

- 1- उ०नि० विनय कुमार सिंह चौकी प्रभारी जंगल कौडिया थाना पीपीगंज गोरखपुर
- 2- उ०नि० सदानन्द सिन्हा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
- 3- का० उपेन्द्र सिंह यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
- 4- का० मनीष कुमार थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर